

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937

No. 404]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

फा. सं 13—सी. ए.(परीक्षा) सी.पी.टी./दिसम्बर/2015/II.—इंस्टीट्यूट की अधिसूचना सं. 13—सी.ए. (परीक्षा)/सी.पी. टी./दिसम्बर/2015 दिनांक 21 जुलाई 2015, के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, दिनांक 13 दिसम्बर 2015 को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.), जो कि पहले तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, कोयम्बटूर, ईरोड, कुंभाकोनम, मदुरई, सेलम, शिवाकाशी, तिरुचीरापल्ली, तिरुनेलवेली, त्रिपुर, टूटीकोरिन, और वेल्लोर केन्द्रों, आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुर, गुन्टूर, काकीनाडा, कुरनूल, नैल्लोर, ओंगोल, राजामहेंद्रवरम, तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापटनम और पॉण्डिचेरी परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होनी थीं, पुनर्निर्धारित की जाती हैं, और अब कथित परीक्षा 27 दिसम्बर 2015 को पूर्वनिर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर पूर्वनिर्धारित समयानुसार अर्थात् प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक (प्रातः कालीन सत्र) तथा दोपहर 2.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक (अपराहन सत्र) (भारतीय समयानुसार) आयोजित की जाएंगी।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि, अन्य समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में अधिसूचना सं., नं. 13— सी. ए. (परीक्षा)/सी.पी.टी./दिसम्बर/2015 दिनांक 21 जुलाई, 2015 द्वारा अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तित रहेंगे।

पहले से जारी किये गये प्रवेश पत्र उपरोक्त परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./104/15(295)]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up By An Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2015

F. No. 13-CA (EXAM)/CPT/December/2015/II.—In continuation to the Institute's Notification No. 13-CA (EXAM)/CPT/December/2015 dated 21st July, 2015, it is notified for the general information that Common Proficiency Test scheduled on 13th December, 2015 in Chennai, Coimbatore, Erode, Kumbakonam, Madurai, Salem, Sivakasi, Tiruchirapalli, Tirunelveli Tirupur, Tuticorin and Vellore cities in the State of Tamil Nadu, Anantapur, Guntur, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Rajamahendravaram, Tirupati, Vijayawada and Visakhapatnam cities in the State of Andhra Pradesh & Pondicherry stand rescheduled and the said test shall now be held on 27th December, 2015 at the same venue(s) and at the same timings i.e. 10.30 AM to 12.30 PM (Morning Session) and 2.00 PM to 4.00 PM (Afternoon Session) (IST).

However, it is clarified that the schedule of examinations notified vide Notification No. 13-CA (EXAM)/CPT/December/2015 dated 21st July 2015 in respect of all other cities shall remain unchanged.

Admit Cards already issued would remain valid for the above test.

V. SAGAR, Member Secy.

[ADVT-III/4/Exty./104/15 (295)]